

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 1967/पौष 19, 1888

No. 19] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 1967/PAUSA 19, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January 1967

S.O. 139.—The following Order of the Election Commission is published for general information:—

ORDER No. 12C

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delimitation Commission Act, 1962, I hereby make the following corrections in the Delimitation Commission's Order No. 12, dated the 16th September, 1965 relating to the State of Orissa, namely:—

In 'Table B of the Order',

- (i) in item 22-Sukinda, after the words "grama panchayats", the words "and the villages Goliamuhapatna and Kabatbandha" shall be inserted; and
- (ii) in item 23-Dharmasala, after the words "grama panchayats", the words "and the villages Goliamuhapatna and Kabatbandha" shall be inserted.

Sd/- K. V. K. SUNDARAM,
Chief Election Commissioner.

[No. 282/OR/66.]

By Order,

K S RAJAGOPALAN, Secy.

(39)

